

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट, फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज में नौकरियां पेश करते हुए कैरियर एक्सपो का आयोजन करेगी

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (7 फरवरी, 2020) – ब्रैम्पटन ट्रांज़िट और फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज (Brampton Transit and Fire and Emergency Services) में कैरियर के बारे में जानने के बेजोड़ अवसर के लिए, मंगलवार, 25 फरवरी को दोपहर बाद 3 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, क्रिस गिब्सन रेक्रिएशन सेंटर (Chris Gibson Recreation Centre) में सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के स्टाफ के साथ शामिल हों।

बस संबंधी संचालन करना और आग की घटनाओं का मुकाबला करना, इन विभागों की आम भूमिकाएं हो सकती हैं, लेकिन कई ऐसे महत्वपूर्ण पद भी हैं, जिनसे ये टीम बनती हैं। सिटी मकैनिकों, प्रेजीडेंट और प्रशासकों की नियुक्ति करती है। सूचना प्रौद्योगिकी, नक्शे बनाना, ग्राहक सेवा, सार्वजनिक शिक्षा आदि में भी भूमिकाएं हैं।

निम्नलिखित के लिए सिटी के कैरियर एक्सपो (Career Expo) में शामिल हों:

- ट्रांज़िट और फायर विभागों के साथ कैरियर संबंधी मार्ग और विकास के अवसरों के बारे में जानें
- उन कर्मचारियों से काम के बारे में कहानियां सुनें, जो इस समय इन टीमों का हिस्सा हैं
- निशुल्क रेज्यूमे क्लिनिक (Resume Clinic) में भाग लें, यह आपको बेहतर ढंग से आगे बढ़ने में मदद करेगा – अपना रेज्यूमे लेकर आएं। सिटी के विशेषज्ञ आपके साथ इसकी समीक्षा करेंगे

शानदार सेवा प्रदान करने की शुरुआत, एक प्रेरित और जोशीली टीम के साथ होती है। यह कार्यक्रम सिटी के लिए नया है। टीम, कैरियर संबंधी अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उत्साहित है। हालांकि एक्सपो के दौरान सिटी रेज्यूमे स्वीकार नहीं कर पाएगी, फिर भी स्टाफ, नौकरी ढूंढने वाले को योग्यताओं और नौकरी पर रखने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देगा।

क्रिस गिब्सन रेक्रिएशन सेंटर, विलियम्स पार्कवे (Williams Parkway) और क्वीन स्ट्रीट (Queen Street) के बीच, 125 मैकलॉगलिन रोड (125 McLaughlin Road) पर स्थित है।

संक्षेप तथ्य

- जनवरी 2020 में, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को फोर्ब्स (Forbes) द्वारा [कैनेडा के बेस्ट इम्प्लायर्स 2020 \(Canada's Best Employers 2020\)](#) में से एक के तौर पर मान्यता दी गई थी। यह कैनेडा में 300 श्रेष्ठ इम्प्लायर्स की सूची है। सिटी श्रेष्ठ 50 की सूची में, केवल दो कैनेडियन गवर्नमेंट सर्विसिज (Canadian Government Services) संगठनों में से एक थी।
- नवंबर 2019 में, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने पंचवर्षीय, वर्कप्लेस डायवर्सिटी एंड इन्क्लूजन स्ट्रैटजी एंड वर्क प्लान (Workplace Diversity and Inclusion Strategy and Work Plan) तैयार किया। यह अधिक सम्मिलित, ऐसी संगठनात्मक संस्कृति विकसित करने के अवसर प्रदान करता है, जो अपने लोगों को शामिल करता हो, उन्हें विकसित करता हो और उनका जश्न मनाता हो और विविध कार्यबल को आकर्षित करता हो।

हवाले

“अच्छी तरह से संचालित शहर एक आधुनिक, विविध और सम्मिलित कार्यबल को शामिल करता है – जो सिटी की नई पंचवर्षीय वर्कप्लेस डायवर्सिटी एंड इन्क्लूजन स्ट्रैटजी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ मिलकर, हम उस समुदाय का विचारात्मक व विविध कार्यबल विकसित कर रहे हैं, जिसे सिटी ऑफ ब्रैम्पटन सेवा प्रदान करती है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हमारी टीम, हमारे निवासियों के लिए निरंतर नतीजे प्रदान करने के लिए उत्साहित है। ऐसे लोगों को आकर्षित करने, जो हमारे समुदाय को दर्शाते हैं और हमारे मूल्यों को साझा करने से, काम करने का ऐसा वातावरण पैदा होता है, जहां हमारे कर्मचारी प्रगति करते हैं। यदि आप ब्रैम्पटन के लिए बदलाव लाना चाहते हैं, तो मैं आपको ट्रांज़िट या फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज में रोमांचक कैरियर के बारे में जानने के लिए हमारे पहले कैरियर एक्सपो में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता हूं।”

- डेविड बैरिक् (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca